

## राजभाषा विभाग की नवम्बर, 2020 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (i) दिनांक 02 नवम्बर, 2020 से 05 नवम्बर, 2020 के दौरान की गयी केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 42वीं बैठक में मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों एवं राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया। कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु भाग लेने वाले सभी 79 मंत्रालयों के साथ 4 दिनों में प्रतिदिन दो चरणों क्रमशः प्रथम चरण (पूर्वाह्न 10.30-12.00 बजे) तथा द्वितीय चरण (अपराह्न 02-30 - 4.00 बजे) में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के संबंध में किए गए कार्यों की समीक्षा की गयी और अपेक्षित सुधार के उपायों पर चर्चा की गयी।
- (ii) राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से कुल 70 ई-निरीक्षण, 65 ई-बैठकें, 17 अन्य बैठकें/वेबिनार किए गए।
- (iii) सचिव (राजभाषा) ने दिनांक 24 नवम्बर, 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा "भाषा विज्ञान बनाम राजभाषा : वर्तमान दशा और दिशा" विषय पर आयोजित वेबमिनार शृंखला में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार रखे।
- (iv) दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम-1) के तत्वाधन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन को सचिव (राजभाषा) ने संबोधित किया।
- (v) विभाग में 44 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (vi) केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिनांक 02 नवम्बर से 06 नवम्बर तथा 16 नवम्बर से 20 नवम्बर 2020 के दौरान ऑनलाइन हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें क्रमशः 22 और 9 कार्मिकों ने भाग लिया।
- (vii) केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में दिनांक 23,24,25 एवं 26 नवम्बर, 2020 को हिन्दी भाषा एवं हिन्दी टंकण परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- (viii) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में डॉ. बरुन कुमार ने निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
- (ix) संसदीय राजभाषा समिति की तीनों उप समितियों ने दिल्ली स्थित कुल 75 कार्यालयों का निरीक्षण किया।

- (x) "राजभाषा भारती" पत्रिका के अंक 158 की 3000 प्रतियों का व्यक्तिगत एवं डाक द्वारा सम्पूर्ण भारत में वितरण किया गया।
- (xi) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो व इसके केन्द्रों द्वारा एक त्वरित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम(ढाई घंटे) तथा 2 संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 दिवसीय) आयोजित किए गए। इनमें 72 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।
- (xii) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा नवम्बर माह में 1,745 मानक पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया गया।

\*\*\*\*\*